

प्रेस नोट दिनांक-31.01.2021

(1). आज दिनांक 31.01.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा एवं थाना मारकुंडी क्षेत्र के जंगलों में दस्यु गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु सघन काम्बिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना मारकुंडी क्षेत्र के जंगलों में, बरुआ पहाड़, माढों बंधा, अमरावती पहाड़, ददरी के जंगलों में कांबिंग की गयी। कांबिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह एवं उनकी टीम, सर्विलांस प्रभारी श्री श्रवण कुमार सिंह एवं उनकी टीम, एंटी डकैती प्रभारी श्री रोहित तिवारी एवं उनकी टीम, चौकी प्रभारी ददरी उ0नि0 श्री शेषमणि त्रिपाठी एवं उनकी टीम एवं पीएसी बल के साथ में रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गणेश कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा अकबरपुर गेट के पास से अभियुक्त 1.नीरज पुत्र तीरथ प्रजापति निवासी छिवलहा थाना भरतकूप को 90 क्वार्टर देशी शराब व अभियुक्त 2.शिवचरन पुत्र सधुवा निवासी सुदिनपुर थाना भरतकूप को 45 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत किये गये।

बरामदगी:-

135 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गणेश कुमार गुप्ता थाना भरतकूप
2. मुख्य आरक्षी अब्दुल खलील
3. आरक्षी दीपक कुमार श्रीवास्तव
4. आरक्षी चालक शफीक

(3). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2030 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 30/01/2021 को समय 18:47 बजे इवेंट संख्या 7957 द्वारा घटनास्थल खोह के पास रेलवे क्रासिंग के आगे थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर विजय द्वारा सूचना दी गयी कि 08 साल का एक बच्चा मिला है बता रहा है कि दिल्ली के आसपास का रहने वाला है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों ने देखा कि एक 08 साल का बच्चा है जो अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है पीआरवी कर्मियों ने बच्चे को अपने साथ लेकर आसपास पूछताछ की तो कोई जानकारी नहीं मिली। पीआरवी कर्मियों ने बच्चे को लेकर कोतवाली कर्वी में खोज बीन की गई और आसपास पूछा गया तो जानकारी हुई कि बच्चा शंकर बाजार का रहने वाला है। पीआरवी कर्मियों ने बच्चे को लेकर शंकर बाजार गये और वहां पर जाकर जानकारी हुई कि बच्चे के पिता की किराने की दुकान है। पीआरवी कर्मियों ने बच्चे अंश को उसके पिता अरुण पटेल और माता को सकुशल सुपुर्द किया।

पीआरवी स्टाफ:-

1. कमांडर - मुख्य आरक्षी मनीष द्विवेदी
2. सब कमांडर - मुख्य आरक्षी फरीदुद्दीन
3. पायलट - आरक्षी राजीव कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा वाद सं0 101/17 धारा 147/323/149/436/427504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बउरा पुत्र किस्सू निवासी वाल्मीकि नगर पूर्वी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंकज परिहार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करने वाले अभियुक्त धीरज उर्फ थानेदार पुत्र भुल्लू प्रजापति निवासी इटखरी थाना भरतकूप 02. समरजीत पुत्र संता यादव निवासी गोड़ा थाना भरतकूप 03. मो0 हासिम पुत्र इसरायिल निवासी गोडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110g Crpc की कार्यवाही की गयी।

(7). आज दिनांक 31/01/2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी तथा उनकी टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांगा शिवरामपुर में ट्रक चालक, विक्रम चालक एवं बस चालक तथा अन्य चार पहिया चालकों को एकत्र कर सभी का नेत्र परीक्षण कराया गया साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण जांच भी कराई गई। सभी चालकों को एकत्र कर यातायात के नियमों के संबंध में जानकारी दी गयी, भारी वाहन चालकों को शराब के नशे में तथा नींद में वाहन न चलाने हेतु प्रेरित किया गया। सभी वाहन चालकों को निर्देश दिये गये कि तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं प्रतिबंधित जगह पर वाहन ना खड़ा करें। इसी क्रम में हल्के चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर चलने एवं दो पहिया वाहन चालकों को भी हेलमेट लगाकर चलने हेतु प्रेरित किया गया। यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए साथ ही साथ सभी भारी वाहन चालकों को बताया गया की प्रति 6 माह के बाद अपना नेत्र परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य करा लिया करें। यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। यातायात प्रभारी द्वारा उपस्थित समस्त चालकों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु शपथ दिलायी गयी।

कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ0 उमेश निषाद, पीटीओ श्री संतोष तिवारी, श्री दिलीप वर्मा वीटीओ0 शिवरामपुर, श्री सुशील पांडे वीटीओ0, श्री रामकेश यादव वीटीओ सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, श्री उत्कर्ष विश्वकर्मा एलटी सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, मनीष यादव काउंसलर सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय तथा अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 31.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ, शिवपुर व यमुना घाट में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा गणेश बाग कर्वी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत बाजार में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी ग्राम दीपूकोलान में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा कोठी तालाब, बस स्टैंड, ट्राफिक चौराहा मिशन रोड एलआईसी चौराहा गणेश बाग, सोने पुर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।